

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
इरला चैक,
उत्तराखण्ड शासन।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

देहरादून दिनांक 30 मार्च, 2017

विषय:- आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में स्थित आई0टी0 भवन के भूतल एवं प्रथम तल में प्रस्तावित फर्निशिंग कार्य के संबंध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि आई0टी0 पार्क में स्थित आई0टी0 भवन के निर्माण हेतु शासन के द्वारा अनुमोदित आगणन रू0 1396.87 लाख के सापेक्ष कुल धनराशि रू0 1396.87 जारी कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त आई0टी0 भवन में वाह्य विद्युत संयोजन हेतु शासन के द्वारा रू0 39.88 लाख की धनराशि पृथक से जारी की गयी है। जिनका उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया गया है। पुनः आई0टी0डी0ए0 के पत्र संख्या-694/आई0टी0डी0ए0-313/2016 दिनांक 14.10.2016 के द्वारा आई0टी0 भवन में भूतल एवं प्रथम तल पर प्रस्तावित फर्निशिंग कार्य के उपलब्ध कराये गये आगणन क्रमशः 30.41 लाख एवं 75.10 लाख के क्रम में टी0एस0सी0, वित्त विभाग के द्वारा परिक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि क्रमशः रू0 29.38 लाख (रू0 2.68 लाख सिविल कार्य हेतु+ रू0 26.70 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार कराये जाने वाले कार्य हेतु) एवं रू0 73.38 लाख (रू0 5.10 लाख सिविल कार्य हेतु + रू0 68.28 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार कराये जाने वाले कार्य हेतु) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि रू0 2.00 करोड़ में से रू0 102.76 लाख (रू0 29.38 लाख + रू0 73.38 लाख) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वहन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- I- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- II- कार्य पर मदवार उतनी ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
- III- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

- IV- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाए।
- V- विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- VI- स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
- VII- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
- VIII- आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2- उक्त व्यय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-23 के लेखाशीर्षक 4859-दूर संचार एवं इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूजीगत परिव्यय-02-इलेक्ट्रानिक्स -800-अन्य व्यय-03-राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश अनुदान संख्या-23 के अलोटमेन्ट आई0डी0 संख्या- H1703233312 दिनांक 24 मार्च, 2017 तथा वित्त अनुभाग- 2 के अशासकीय सं0- 126 दिनांक 22 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्न यथोपरी।

भवदीय,

(धर्मन्द्र सिंह)

अपर सचिव

संख्या- 51 /XXXIV/2016-40/2012 टी0सी0-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. निदेशक, आई0टी0डी0ए0, देहरादून।
- ✓ 3. केन्द्रीकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, उत्तराखण्ड सचिवालय। ✓
4. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड सचिवालय।
5. सचिवालय प्रशासन लेखा/बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
- ✓ 6. एन0आई0सी0, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)

संयुक्त सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Secretary, IT (9017)

आवंटन पत्र संख्या - 47/XXXIV/2017-40/2012 TC-1

अलोटमेंट आई डी - H1703233312

अनुदान संख्या - 023

आवंटन पत्र दिनांक -24-Mar-2017

DDO Name - Finance Officer IRLADehradun (4651) . Treasury - Cyber (1200)

- 1: लेखा शीर्षक 4859 - दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय 02 - इलेक्ट्रानिक्स
800 - अन्य व्यय
03 - राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढीकरण (आई0 टी0 पार्क देहरादून एस0पी0ए0)
00 - -

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - ब्रह्म निर्माण कार्य	0	10276000	10276000
	0	10276000	10276000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

10276000

(सहसंचालक/सचिव)
सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी
परिचालन विभाग
देहरादून

